

Unique Paper Code : 52414303
Name of the Paper : Company Law (Nov/Dec 2021)
Name of the Course : B.Com (Programme)
Semester : III

Duration: 3 hours
75

Maximum Marks:

Instructions for Candidates

Note: Answers may be written *either* in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

Attempt any four questions.

All questions carry equal marks.

Q1. The fundamental attribute of corporate personality is that company is a legal entity different from its members but still the court may disregard it under a few circumstances. Elucidate the statement citing relevant case laws.

Q2. “An outsider is presumed to know the constitution and the statutory public documents of a company, but not what may or may not have taken place within the doors that are closed to him”. Explain with reference to the relevant doctrine with exceptions, if any.

Q3. XYZ Ltd. is a public company. The company wants to appoint Ms. Namrata as the director in the company. Discuss the methods by which she may be appointed director in the company as laid down by the Companies Act 2013. Can the directors of a company be removed during their term of office?

Q4. What do you mean by “buy back of securities” Explain the legal provisions related to buy -back of shares by the company as per the Companies Act in this regard.

Q.5 What is Annual General Meeting? The Annual General Meeting of the Z Ltd. was scheduled to be held on 30th December 2019. Due to insufficient quorum, it had to be adjourned. What rules should be followed while adjourning the meeting? What is the quorum required for Z Ltd. (The company had 10,090 members on the date)? What if the quorum is not present in a general meeting? Can a single member constitute quorum of a general meeting?

Q6. There are only two members of a company. They are also the directors of the company. But both are not on speaking terms. Can the company be wound- up on this ground? Give reasons. Discuss in detail the circumstances under which a company may be compulsory wound up by the Tribunal under the Companies Act.

munotes.in

Unique Paper Code

: 52414303

Name of the Paper

: Company Law (Nov/Dec 2021)

Name of the Course

: B.Com (Programme)

Semester

: III

Duration: 3 hours

Maximum Marks: 75

विद्यार्थियों के लिए निर्देश

- किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- इस प्रश्नपत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी भी माध्यम में दिए जा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि सभी प्रश्नों के उत्तर का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Q1. कॉर्पोरेट व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता यह है कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग एक कानूनी इकाई होती है लेकिन अदालत फिर भी कुछ परिस्थितियों में इसकी अवहेलना कर सकती है। प्रासंगिक कानूनी मामले का संदर्भ देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए।

Q2. "एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह माना जाता है कि वह कंपनी के संविधान और उसके वैधानिक सार्वजनिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन उसके लिए बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है इसे जानने के लिए नहीं होता है." अपवादों के साथ, यदि कोई हो, तो प्रासंगिक सिद्धांत के संदर्भ को स्पष्ट कीजिए।

Q3. XYZ लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी सुश्री नम्रता को कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त करना चाहती है। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा उन्हें कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जा सकता है। क्या किसी कंपनी के निदेशकों को उनके कार्यकाल के दौरान हटाया जा सकता है?

Q4. "प्रतिभूतियों के वापस खरीदने" से आपका क्या मतलब है इस संबंध में कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी द्वारा शेयरों की खरीद-वापस करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए.

Q.5 वार्षिक आम बैठक क्या होती है? Z लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक 30 दिसंबर 2019 को होनी थी. अपर्याप्त कोरम के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। बैठक स्थगित करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए? Z लिमिटेड के लिए क्या कोरम जरूरी है (कंपनी में उस तारीख को 10,090 सदस्य थे)? यदि कोरम एक आम बैठक में मौजूद नहीं है तो क्या होगा? क्या केवल एक सदस्य आम बैठक का कोरम का गठन कर सकता है?

Q6. एक कंपनी के सिर्फ दो सदस्य हैं। वे कंपनी के निदेशक भी हैं। लेकिन दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं. क्या कंपनी इस आधार पर बैठक समाप्त कर सकती है? कारण दें. कंपनी अधिनियम के तहत अधिकरण द्वारा किन परिस्थितियों में किसी कंपनी को अनिवार्य रूप से समाप्त किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए.